

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 323  
No. 407] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939 [N.C.T.D. No. 323

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

सं.फा. 53/99/2017/सा.प्र.वि./समन्व./3407-3455-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिनों को वर्ष 2018 (शक सम्वत् 1939-40) में अवकाश के रूप में मनाए जाने के लिये घोषित करते हैं :-

| क्र. सं.      | अवकाश          | तारीख     | भाक तिथि   | सप्ताह का दिन |
|---------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| शक संवत् 1939 |                |           |            |               |
| 1             | गणतंत्र दिवस   | 26 जनवरी  | माघ 06     | भुक्रवार      |
| 2.            | महा शिवरात्रि  | 14 फरवरी  | माघ 25     | बुधवार        |
| 3.            | होली           | 02 मार्च  | फाल्गुन 11 | भुक्रवार      |
| शक संवत् 1940 |                |           |            |               |
| 4.            | महावीर जयन्ती  | 29 मार्च  | चैत्र 08   | गुरुवार       |
| 5.            | गुड फ्राइडे    | 30 मार्च  | चैत्र 09   | भुक्रवार      |
| 6             | बुद्ध पूर्णिमा | 30 अप्रैल | वैशाख 10   | सोमवार        |
| 7.            | ईद-उल-फितर     | 16 जून    | ज्येष्ठ 26 | भानिवार       |

|     |   |            |             |          |
|-----|---|------------|-------------|----------|
| 8.  | स्वतंत्रता दिवस   | 15 अगस्त   | श्रावण 24   | बुधवार   |
| 9.  | ईद-उल जुहा (बकरीद)  | 22 अगस्त   | श्रावण 31   | बुधवार   |
| 10. | जन्माष्टमी  | 03 सितम्बर | भाद्र 12    | सोमवार   |
| 11. | मुहर्रम   | 21 सितम्बर | भाद्र 30    | भुक्रवार |
| 12. | महात्मा गांधी जन्मदिवस  | 02 अक्टूबर | अि वन 10    | मंगलवार  |
| 13. | द इहरा  | 19 अक्टूबर | अि वन 27    | भुक्रवार |
| 14. | महशि बाल्मीकि जयन्ती  | 24 अक्टूबर | कार्तिक 02  | बुधवार   |
| 15. | दिवाली (दीपावली)  | 07 नवम्बर  | कार्तिक 16  | बुधवार   |
| 16. | मिलाद-उन-नबी अथवा ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस) | 21 नवम्बर  | कार्तिक 30  | बुधवार   |
| 17. | गुरु नानक जन्मदिवस  | 23 नवम्बर  | अग्रहायण 02 | भुक्रवार |
| 18. | क्रिसमस दिवस  | 25 दिसम्बर | पौष 04      | मंगलवार  |

उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त कर्मचारी वर्ष 2018 (शक 1939-40) के निम्नलिखित प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई दो अवकाश पाने का हकदार है:-

| क्र. सं.              | अवकाश   | तारीख      | भाक तिथि   | सप्ताह का दिन |
|-----------------------|---|------------|------------|---------------|
| <b>भाक् संवत 1938</b> |   |            |            |               |
| 1.                    | नव वर्ष दिवस                                    | 01 जनवरी   | पौष 11     | सोमवार        |
| 2.                    | मकर संक्रान्ति                                  | 14 जनवरी   | पौष 24     | रविवार        |
| 3.                    | पोंगल   | 14 जनवरी   | पौष 24     | रविवार        |
| 4.                    | बसंत पंचमी / श्री पंचमी                         | 22 जनवरी   | माघ 02     | सोमवार        |
| 5.                    | गुरु रविदास जन्मदिवस                            | 31 जनवरी   | माघ 11     | बुधवार        |
| 6.                    | स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती                   | 10 फरवरी   | माघ 21     | भानिवार       |
| 7.                    | शिवाजी जयन्ती                                   | 19 फरवरी   | माघ 30     | सोमवार        |
| 8.                    | होलिका दहन / दोलयात्रा                          | 01 मार्च   | फाल्गुन 10 | गुरुवार       |
| 9.                    | चैत्र शुक्लादि / गुडी पडवा / उगाड़ी / चेती चाँद | 18 मार्च   | फाल्गुन 27 | रविवार        |
| <b>भाक् संवत 1940</b> |   |            |            |               |
| 10.                   | राम नवमी  | 25 मार्च   | चैत्र 04   | रविवार        |
| 11.                   | ईस्टर रविवार                                    | 01 अप्रैल  | चैत्र 11   | रविवार        |
| 12.                   | हज़रत अली का जन्मदिवस                           | 01 अप्रैल  | चैत्र 11   | रविवार        |
| 13.                   | वैशाखी / विभु / मसादि                           | 14 अप्रैल  | चैत्र 24   | भानिवार       |
| 14.                   | वैशाखादि (बंगाल) / बिहाग बिहू (असम)             | 15 अप्रैल  | चैत्र 25   | रविवार        |
| 15.                   | गुरु रविन्द्रनाथ जयन्ती                         | 09 मई      | वैशाख 19   | बुधवार        |
| 16.                   | जमात-उल-विदा                                    | 15 जून     | ज्येष्ठ 25 | भुक्रवार      |
| 17.                   | रथ यात्रा                                       | 14 जुलाई   | आशाढ़ 23   | भानिवार       |
| 18.                   | पारसी नववर्ष दिन / नौरोज़                       | 17 अगस्त   | श्रावण 26  | भुक्रवार      |
| 19.                   | ओणम एवं थिरु ओणम दिवस                           | 25 अगस्त   | भाद्र 03   | भानिवार       |
| 20.                   | रक्षा बंधन                                      | 26 अगस्त   | भाद्र 04   | रविवार        |
| 21.                   | विनायक चतुर्थी / गणेश चतुर्थी                   | 13 सितम्बर | भाद्र 22   | गुरुवार       |
| 22.                   | द इहरा (महा सप्तमी) (अतिरिक्त)                  | 16 अक्टूबर | अभिवन 24   | मंगलवार       |
| 23.                   | द इहरा (महा अष्टमी) (अतिरिक्त)                  | 17 अक्टूबर | अभिवन 25   | बुधवार        |
| 24.                   | द इहरा (महा नवमी)                               | 18 अक्टूबर | अभिवन 26   | गुरुवार       |

|     |  |            |             |          |
|-----|--|------------|-------------|----------|
| 25. | करक चतुर्थी (करवा चौथ)                 | 27 अक्टूबर | कार्तिक 05  | भानिवार  |
| 26. | दीपावली (दक्षिण भारत)                  | 06 नवम्बर  | कार्तिक 15  | मंगलवार  |
| 27. | नरक चतुर्दशी                           | 06 नवम्बर  | कार्तिक 15  | मंगलवार  |
| 28. | गोवर्धन पूजा                           | 08 नवम्बर  | कार्तिक 17  | गुरुवार  |
| 29. | भाई दूज                                | 09 नवम्बर  | कार्तिक 18  | भुक्रवार |
| 30. | प्रतिहार ाष्टी / सूर्य ाष्टी (छठ पूजा) | 13 नवम्बर  | कार्तिक 22  | मंगलवार  |
| 31. | गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस             | 24 नवम्बर  | अग्रहायण 03 | भानिवार  |
| 32. | क्रिसमस की पूर्व संध्या                | 24 दिसम्बर | पौष 03      | सोमवार   |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अमिताभ कुंडू, उप सचिव

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(CO-ORDINATION BRANCH)

### NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2017

**No. F.53/99/2017/GAD/CN/3407-3455.**—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that the days specified in the following schedule be observed as holidays in all Government Offices under Government of National Capital Territory of Delhi during the year 2018 (Saka Era 1939-40):—

| S. No.               | Holiday  | Date         | Saka Date     | Day       |
|----------------------|--|--------------|---------------|-----------|
| <b>1939 SAKA ERA</b> |  |              |               |           |
| 1.                   | Republic Day   | January 26   | Magha 06      | Friday    |
| 2.                   | Maha Shivaratri  | February 14  | Magha 25      | Wednesday |
| 3.                   | Holi   | March 02     | Phalguna 11   | Friday    |
| <b>1940 SAKA ERA</b> |  |              |               |           |
| 4.                   | Mahavir Jayanti  | March 29     | Chaitra 08    | Thursday  |
| 5.                   | Good Friday  | March 30     | Chaitra 09    | Friday    |
| 6.                   | Buddha Purnima   | April 30     | Vaisakha 10   | Monday    |
| 7.                   | Id-ul Fitr   | June 16      | Jyaishtha 26  | Saturday  |
| 8.                   | Independence Day   | August 15    | Sravana 24    | Wednesday |
| 9.                   | Id-ul-Zuha (Bakrid)  | August 22    | Sravana 31    | Wednesday |
| 10.                  | Janmashtami  | September 03 | Bhadra 12     | Monday    |
| 11.                  | Muharram   | September 21 | Bhadra 30     | Friday    |
| 12.                  | Mahatma Gandhi's Birthday                                  | October 02   | Asvina 10     | Tuesday   |
| 13.                  | Dussehra   | October 19   | Asvina 27     | Friday    |
| 14.                  | Maharishi Valmiki's Birthday                               | October 24   | Kartika 02    | Wednesday |
| 15.                  | Diwali (Deepavali)   | November 07  | Kartika 16    | Wednesday |
| 16.                  | Milad-un-Nabi or Id-e Milad (Birthday of Prophet Mohammad) | November 21  | Kartika 30    | Wednesday |
| 17.                  | Guru Nanak's Birthday                                      | November 23  | Agrahayana 02 | Friday    |
| 18.                  | Christmas Day  | December 25  | Pausha 04     | Tuesday   |

In addition to the holidays specified in above schedule an employee is entitled to avail himself/herself of any two holidays out of the restricted holidays during the year 2018 (Saka era 1939-40) as mentioned below :

| S.No.                | Holiday  | Date         | Sake Date     | Day       |
|----------------------|--|--------------|---------------|-----------|
| <b>1939 SAKA ERA</b> |  |              |               |           |
| 1.                   | New Year's Day                                       | January 01   | Pausha 11     | Monday    |
| 2.                   | Makar Sankranti                                      | January 14   | Pausha 24     | Sunday    |
| 3.                   | Pongal   | January 14   | Pausha 24     | Sunday    |
| 4.                   | Basant Panchami/<br>Sri Panchami                     | January 22   | Magha 02      | Monday    |
| 5.                   | Guru Ravidas's Birthday                              | January 31   | Magha 11      | Wednesday |
| 6.                   | Swami Dayananda<br>Saraswati Jayanti                 | February 10  | Magha 21      | Saturday  |
| 7.                   | Shivaji Jayanti                                      | February 19  | Magha 30      | Monday    |
| 8.                   | Holika Dahan/ Dolyatra                               | March 01     | Phalguna 10   | Thursday  |
| 9.                   | Chaitra Sukladi/ Gudi Padava / Ugadi/<br>Cheti Chand | March 18     | Phalguna 27   | Sunday    |
| <b>SAKA ERA 1940</b> |  |              |               |           |
| 10.                  | Ram Navami   | March 25     | Chaitra 04    | Sunday    |
| 11.                  | Easter Sunday  | April 01     | Chaitra 11    | Sunday    |
| 12.                  | Hazarat Ali's Birthday                               | April 01     | Chaitra 11    | Sunday    |
| 13.                  | Vaisakhi / Vishu/ Mesadi                             | April 14     | Chaitra 24    | Saturday  |
| 14.                  | Vaisakhadi (Bengal)/Bahag Bihu<br>(Assam)            | April 15     | Chaitra 25    | Sunday    |
| 15.                  | Guru Rabindranath's Birthday                         | May 09       | Vaisakha 19   | Wednesday |
| 16.                  | Jamat-Ul-Vida  | June 15      | Jyaishta 25   | Friday    |
| 17.                  | Rath Yatra   | July 14      | Ashadha 23    | Saturday  |
| 18.                  | Parsi New Year's day / Nauraj                        | August 17    | Sravana 26    | Friday    |
| 19.                  | Onam or Thiru Onam Day                               | August 25    | Bhadra 03     | Saturday  |
| 20.                  | Raksha Bandhan                                       | August 26    | Bhadra 04     | Sunday    |
| 21.                  | Vinayaka Chaturthi / Ganesh Chaturthi                | September 13 | Bhadra 22     | Thursday  |
| 22.                  | Dussehra (Maha Saptami) (Additional)                 | October 16   | Asvina 24     | Tuesday   |
| 23.                  | Dussehra (Maha Ashtami) (Additional)                 | October 17   | Asvina 25     | Wednesday |
| 24.                  | Dussehra (Maha Navmi)                                | October 18   | Asvina 26     | Thursday  |
| 25.                  | Karaka Chaturthi (Karva Chouth)                      | October 27   | Kartika 05    | Saturday  |
| 26.                  | Deepavali ( South India)                             | November 06  | Kartika 15    | Tuesday   |
| 27.                  | Naraka Chaturdasi                                    | November 06  | Kartika 15    | Tuesday   |
| 28.                  | Govardhan Puja                                       | November 08  | Kartika 17    | Thursday  |
| 29.                  | Bhai Duj   | November 09  | Kartika 18    | Friday    |
| 30.                  | Pratihara Sashthi or Surya Sashthi<br>(Chhat Puja)   | November 13  | Kartika 22    | Tuesday   |
| 31.                  | Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day                     | November 24  | Agrahayana 03 | Saturday  |
| 32.                  | Christmas Eve  | December 24  | Pausha 03     | Monday    |

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

AMITABH KUNDOO, Dy. Secy.